

सुधारक/ आवासीय गृह
त्वेन मुन चिल्ड्रेन और बाल सुधार गृह

● **सेवा का विवरण**

समाज कल्याण विभाग (SWD) न्यायालय के निर्देशों को परभावी करने के लिए सामाजिक कार्य हस्तक्षेप के द्वारा कु-व्यवस्थित बच्चों/बाल और युवा अपराधियों के आवासीय प्रशिक्षण सेवा प्रदान करता है। सेवा के तालमेल को हासिल करने और सुविधाओं के साझा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2007 में SWDco- ने त्वेन मुन चिल्ड्रेन और बाल सुधार गृह (TMCJH) नामक एक बहु-उद्देश्य आवासीय परिसर में छह सुधारक और आवासीय गृहों की स्थापना की है, जो एक शरण स्थल, एक रिमांड होम, एक स्वीकृत संस्थान (प्रोबेशन होम) और एक सुधार स्कूल के कार्य करते हैं।

● **लक्ष्य समूह**

TMCJH एक राजपितरत गृह है जो निम्नलिखित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों/किशोर और युवा अपराधियों के लिए अस्थाई कस्टडी और आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है—

- प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड जुवैनाइल्स ऑडिनेंर्स (चैप्टर 213), द' इमीग्रेशन ऑडिनेंर्स (चैप्टर 115) और चाइल्ड अब्यूक्शन एण्ड कस्टडी ऑडिनेंर्स (चैप्टर 512) के अंतर्गत एक शरण स्थल
- जुवैनाइल्स ऑफेंडर्स ऑडिनेंर्स (चैप्टर 226) के अंतर्गत एक रिमांड होम
- प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑडिनेंर्स (चैप्टर 298) के अंतर्गत एक स्वीकृत संस्थान (प्रोबेशन होम)
- रिफॉर्मेटरी स्कूल ऑडिनेंर्स (चैप्टर 225) के अंतर्गत एक सुधार स्कूल

● **क्षमता**

388

● **सेवा की विशेष्यसतु**

I) शिक्षा और वोकेशनल प्रशिक्षण

यहां के निवासियों को उनके विविध शैक्षणिक स्तरों को पूरा करने और सीखने की जरूरतों के लिए और उनकी ठहरने की अविध के संबंध में अकादमिक और सामान्य विषयों की शिक्षा तथा विविधतापूर्ण कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि उन्हें इस गृह से छोड़े जाने पर आगामी अध्ययन करने और/या मान्यताप्राप्त योग्यता के साथ उनकी वोकेशनल काम-काज और रोजगार योग्यता में वृद्धि की जाए।

II) वियक्तगत परामर्श और समूह कार्य सेवाएं

केस परामर्श और समूह कार्य के माध्यम से एकल निवासियों को निजी, पारस्परिक और पारिवारिक मुद्दों को संभालने में एकल निवासियों की स्वयं-समझ, सामाजिक कौशल, भावना प्रबंधन और सकारात्मक सोच के माध्यम से सहायता की जाती है। गृह के सोशल वर्कर्स प्रत्येक निवासियों की प्रगति और जरूरतों का फॉलोअप लेते हैं और कल्याण/पुनवास्य योजनाओं पर कार्य करने और क्रियान्वयन करने के लिए निवासियों के माता-पिता/अभिभावकों के साथ तालमेल करते हैं। इसका लक्ष्य यहां के निवासियों को किठनाईयों से उभरने और समाज में दोबारा एकीकरण के लिए आत्मविश्वास और अनुशासन का निमाण करना है।

III) समुदाय के साथ जुड़ाव

एक अथपूर्ण समुदाय जुड़ाव स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समूह और सहायता गतिविधियां संचालित करने के लिए यह गृह अनेक सामुदायिक संगठनों की व्यवस्था करता है। समुदाय सेवा परियोजनाओं की व्यवस्था यहां के निवासियों में एक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने,

और उनके बारे में एक बेहतर समझ पैदा करने में समुदाय को सक्षम बनाने में मदद करना है। यहां के निवासियों को सामुदायिक गतिविधियों और स्वयंसेवी सेवाओं में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके बातचीत कौशल, लीडरशिप और स्वयं-महत्त्व को पोषित किया जाए, जो समुदाय में उनके पुनर्एकीकरण में प्रेरक होगा।

IV) मनोरंजन गतिविधियां

यहां निवासियों के लिए आर्ट्स, म्यूजिक, सांस्कृतिक, खेलों और मनोरंजन गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला आयोजित की जाती है ताकि वे स्वस्थ रूचियां विकसित करें, निजी क्षमताओं में वृद्धि करें और संभावनाओं का विकास कर सकें।

V) अभिभावक मुलाकात/ परिवार कार्य/ अनुपस्थिति अवकाश

माता-पिता और अभिभावकों को सुधारगृह में अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए स्वागत और प्रोत्साहित किया जाता है। केस परामर्श और माता-पिता, अभिभावक – बच्चा गतिविधियां यहां के निवासियों को उनके माता-पिता के साथ सकारात्मक बातचीत और संबंधों में सुधार करने के लिए संचालित की जाती हैं। प्रोबेशन होम और सुधार स्कूल वाले निवासियों के लिए, एक आवासीय प्रशिक्षण अवधि के बाद उन निवासियों को अनुपस्थिति अवकाश प्रदान किया जा सकता है निका प्रदर्शन स्थिर रहा है ताकि सुधारगृह से मुक्त करने पर एक प्रभावी परिवार सहायता प्राप्त करने को सुगम बनाया जा सके।

VI) चिकित्सा देखभाल

सुधारगृह में 24-घंटे नर्सिंग सेवा सुधारगृह की नर्सों द्वारा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे मामलों पर भी स्वास्थ्य की बातचीत, मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान किए जाते हैं। विजिटिंग चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे निवासियों के लिए जिन्हें विशेष शारीरिक, मानसिक या मनोचिकित्सकीय आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मूल्यांकन, सलाह और उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और/या क्लिनिकल मनोचिकित्सक को जिम्मेदार किया जाएगा।

VII) आहार प्रावधान

यहां निवासियों के लिए दैनिक आहार में खानपान सेवा के ठेकेदार के पंजीकृत आहार विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई आहार संबंधी सलाह का पालन किया जाता है।

- **फीस और शुल्क**

सभी सेवाएं मुफ्त हैं

हा

- **पता और संपर्क नंबर**

पता: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories

टेलीफोन नं.: 24607102

फैक्स नं.: 24607812